

 सत्यमेव जयते	<b>केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)</b> <b>O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,</b> केंद्रीय कर भवन, सातवीं मंजिल, पोलिटेकनिक के पास, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015	 7 <sup>th</sup> Floor, GST Building, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-380015
☎ : 079-26305065		टेलिफैक्स : 079 - 26305136

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

क फाइल संख्या : File No : V2(ST)2/Ahd-South/2018-19  
Stay Appl.No. /2017-18

352070  
3524

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-001-APP-003-2018-19  
दिनांक Date : 21-05-2018 जारी करने की तारीख Date of Issue

6/6/2018

श्री उमा शंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by Shri. Uma Shanker, Commissioner (Appeals)

ग Arising out of Order-in-Original No. CGST-VI/REF-100/Modern Power /17-18 दिनांक: 23.02.2018  
issued by Assistant Commissionr, Div-VI, Central Tax, Ahmedabad-South

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent  
**Modern power service**  
**Ahmedabad**

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

**Revision application to Government of India :**

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :


(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रक्रिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

... 2 ...



(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.


सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-  
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग" (Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।


For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute or penalty, where penalty alone is in dispute."



**ORDER IN APPEAL**


This appeal has been filed by M/s Modern Power Service, 404, 4<sup>th</sup> Floor, Sakar-IV, Opp. M.J. Library, Ashram Road, Ahmedabad-380006 (herein after referred to as the appellants) against the OIO No. CGST-VI/Ref-100/Modern Power/17-18 dtd. 23.02.2018 (herein after referred to as the impugned order) passed by the Assistant Commissioner, CGST, Division-VI, Ahmedabad (South) (herein after referred to as the adjudicating authority).

2. The brief facts of the case are that the appellants filed rebate claims for Rs. 14,19,951/- on 14.11.2017 in terms of the Order In Appeal No. AHM-EXCUS-001-APP-084-17-18 dtd. 10.10.2017. As per the OIA dtd. 10.10.2017, the case had been remanded to the adjudicating authority for deciding the case afresh after providing reasonable opportunity of personal hearing. Accordingly, in pursuance to the OIA, the adjudicating authority, vide letter dtd. 09.02.2018, sent a query wherein documents related to the refund claim were called for. The adjudicating authority, vide the impugned order, held that the appellant had failed to submit the called for documents and consequently rejected the refund claim.

3. Being aggrieved by the impugned order, the appellants have filed this appeal on the following grounds:

- a) That the impugned order has been passed without following principle of natural justice as they were not given any opportunity of personal hearing and their documents were not considered;
- b) That they had submitted necessary documents on 26.02.2018 for which the letter from the department was received by them on 21.02.2018 i.e. within five days from the date of receipt of the letter. However the same was not considered;
- c) That they rely on the case law of IT Infra Services P. Ltd. vs. Commissioner of Central Excise, Noida – (2013) 35-Taxmann.com 26 (New Delhi – Cestat) in their support.

4. The personal hearing in the case was held on 16.05.2018 in which Shri Ajit Boricha and Ms. Bhagyashree Bhatt, both Chartered Accountants appeared on behalf of the appellant. They submitted that the OIO has been passed 2<sup>nd</sup> time without personal hearing and without giving them time for submissions. They also submitted a written submission in which it is submitted that they fulfill all the conditions for claiming refund as per Notification No. 6/2015, 9/2016 and Section 102 of the Finance Act, 2016;




that they were not issued any show cause notice and a reasonable opportunity to submit the reply and opportunity of being heard and that the figures tally with the ST-3.

5. I have carefully perused the documents pertaining to the case and submitted by the appellants along with the appeal. I have considered the arguments made by the appellants in their appeal memorandum as well as oral submissions during personal hearing.

6. I find that the issue to be decided in the instant case is whether the rebate claim has been rightly rejected by the adjudicating authority on the ground mentioned in the impugned order.

7. I find that the impugned order has been passed in pursuance to the OIA dtd. 10.10.2017. While going through the directions given in the said OIA, I find that in para 8 of the said OIA, it was very specifically stated that the impugned order involved in that OIA dtd. 10.10.2017 spoke about the value of taxable services provided in ST-3 returns not tallying with the documents submitted with the refund claim and directions to the appellant to provide bifurcation of the turn over which the said appellant failed to provide. It was noted in the OIA dtd. 10.10.2017 in para 8 that it was not forthcoming what efforts were made to get the required information. Now while perusing the impugned order, I find that the adjudicating authority has not discussed even a single word about the requirements and findings made in para 8 of the OIA dtd 10.10.2017. The adjudicating authority has not followed the directions given in the said OIA and has passed the order summarily without going into the contents of the said OIA. I also find that no personal hearing has been given before passing the impugned order. This cavalier attitude is deplorable. The adjudicating authority has no respect for the basic tenet of adjudication. In view of this, I hold that the rejection of rebate claim on the grounds mentioned in the impugned order is not acceptable and is liable to be set aside.

8. Accordingly, I hold that since the appellants have also submitted collateral documents which need to be examined and correlated. For this limited purpose of ascertaining the details given in the documents submitted by the appellant and the directions given in para 7 above, I remand the issue to the adjudicating authority who shall pass a speaking order after providing the appellants a reasonable opportunity of personal hearing. In view of the findings given above, the impugned order is set aside and the case is remanded to the adjudicating authority for decision in view of the directions given above.



9. The appeal is disposed off accordingly.

अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गयी अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है!

*उमा शंकर*

(उमा शंकर)

केंद्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

अहमदाबाद

दिनांक:

सत्यापित

*धर्मेश उपाध्याय*

(धर्मेश उपाध्याय)

अधीक्षक (अपील्स),

केंद्रीय कर, अहमदाबाद

**By R.P.A.D.**

To:

M/s Modern Power Service,  
404, 4<sup>th</sup> Floor,  
Sakar-IV,  
Opp. M.J. Library,  
Ashram Road,  
Ahmedabad-380006

**Copy to:-**

- (1) The Chief Commissioner, CGST, Ahmedabad Zone,
- (2) The Commissioner, CGST, Ahmedabad (South),
- (3) The Dy./Asth. Commissioner, CGST, Div.-IV, Ahmedabad (South),
- (4) The Dy./Asth. Commissioner(Systems),CGST, Ahmedabad (South),
- (5) Guard File,
- (6) P.A.File.

